



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 704 राँची, शुक्रवार,

30 अगस्त, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 अगस्त, 2019

संख्या-5/आरोप-1-150/2016- 18385 (HRMS)-- श्री रविराज शर्मा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 809/03, गृह जिला-खगड़िया), तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद के विरुद्ध कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4053/जे०, दिनांक 16.12.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध कर्मियों पर नियंत्रण नहीं होने, कारा हस्तक नियम-61, 73 का अनुपालन नहीं करने, कारा में नियमित रूप से भ्रमण नहीं करने तथा तलाशी नहीं लेने, कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं बंदी से मेल-जोल रखने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-685, दिनांक 20.01.2017 द्वारा श्री शर्मा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में इन्होंने अपने पत्रांक-3522, दिनांक 02.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि अतिरिक्त प्रभार रहने के बावजूद भी इनके द्वारा काराधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद का कार्य इन्होंने पूर्ण तत्परता, लगन तथा निष्ठापूर्वक किया तथा किसी भी बंदी से मेल-जोल नहीं रखा गया।

श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6898, दिनांक 07.09.2018 द्वारा कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3898, दिनांक 26.12.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री शर्मा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया।

श्री शर्मा के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री शर्मा के स्पष्टीकरण पर कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा एक Generalised form में overall मंतव्य दिया गया, जबकि आरोपवार दिये गये स्पष्टीकरण पर आरोपवार मंतव्य एवं निष्कर्ष दिया जाना वांछनीय है।

समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-3174, दिनांक 18.04.2019 द्वारा कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची से आरोपवार मंतव्य एवं निष्कर्ष की माँग की गई। कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1639/जेल, दिनांक 06.06.2019 द्वारा आरोपवार समीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री शर्मा के विरुद्ध लगाये गये आरोप सं०-1, 2 एवं 3 को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया।

श्री शर्मा के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री शर्मा के स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए इस मामले में इन्हें “भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी” के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAVI RAJ SHARMA BHR/BAS/3767	श्री रविराज शर्मा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-809/03, गृह जिला-खगड़िया), तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद को “भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी” के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
